

RAJYA SABHA

Thursday, 6th August, 1970
Svna, 1B92 (Safca)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

1 PAKISTANI OFFICERS' MEETINGS WITH HOSTILE NAGAS AND MIZOS

*34. SHRI LOKANATH MISRA: SHRI SUNDAR MANI PATEL; SHRI P. YADAV; SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI; DR. BHAI MAHAVIR-SHRI S. S. MARISWAMY; SHRI K. C. PANDA; SHRI N. K. SHEJWALKAR; SHRI MANOHAR; SHRI AL K. ADVANI; SHRI FAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the 'Patriot' of May 27, 1970, stating the high civilian and military officers of Pakistan held summit meeting with the leaders of hostile Nagas and Mizos near Chittagong with a view to mount insurgent activities and to 'liberate' the hilly areas in the Eastern region of our country; and

(b) if so, the reaction of the Government of India in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA): (a) Yes, Sir.

(b) The Security Forces are taking necessary steps to prevent the

Transferred from the 28th July, 1970.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lokanath Misra. 1063 RS—1.

violent activities of the extremist elements.

SHRI LOKANATH MISRA : May I know, Sir, whether it has received the attention of the hon. Minister and the Government that nineteen top leaders of various tribal groups propose setting up a strong base at Jhariban on the Imphal-Silchar border and whether the Pakistani officials have assured these rebels of all kinds of help in the form of arms, guerilla training and, if necessary, shelter in East Pakistan and, if so, whether the Government of India have lodged any protest with the Pakistan High Commission here or our High Commissioner in Pakistan has lodged any protest with the Pakistan Government and if so, what is the reaction of the Pakistan Government?

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Sir, we have this information available that a joint conference of military officers and civilian officials of Pakistan, and some leaders of the Mizos, Nagas and Singraks from India and Pakistan was held on the 26th and 27th of October, 1969, in the Chittagong Hill Tracts. About the complaint to the Pakistan Government, the Ministry of External Affairs sent a protest note regarding this meeting to Pakistan on the 26th of March, 1970, but the Pakistan Government have rejected this protest note by our Government.

SHRI LOKANATH MISRA: But in cases of this type, Sir, when foreign Governments interfere in the internal affairs of a particular State, normally the procedure is that the Ambassador belonging to that particular interfering State is summoned to the External Ministry and warned. In the case of this particular affair, Sir, when the Government of India is cent per cent sure that they are instigating the rebels in India,

why did not the External Affairs Ministry summon the Pakistan High Commissioner and warn him as normally is the procedure in such cages ?

SHRI JAGJIVAN RAM: In accordance with the normal procedure the protest note was sent to the Pakistan Government. They rejected the note but indirectly admitted the thing by laying that because the hill people in the eastern area of India are not being treated properly they have taken refuge in East Pakistan. So they have admitted it, and the protest note is to be pursued.

MR. CHAIRMAN: The question was : Was the High Commissioner of Pakistan called to the External Affairs Ministry and warned and, if not, why not ? That was the question.

SHRI JAGJIVAN RAM : But I have answered that, Sir, I followed the question and I have said that the External Affairs Ministry have followed the normal procedure and lodged the protest with the Pakistan Government.

SHRI MAHAVIR TYAGI: That is no answer. The question was : Was the High Commissioner of Pakistan summoned and warned ? Say yes or no.

SHRI TAGJIVAN RAM: It is quite obvious from the answer that I have given previously that a protest note was sent to the Pakistan Government.

SHRI MAHAVIR TYAGI: So he was not called.

SHRI LOKANATH MISRA : Sending a protest note to the Pakistan Government and summoning their High Commissioner . . .

MR. CHAIRMAN: He has made the statement that he was not summoned but only the protest note was sent.

SHRI MAHAVIR TYAGI: Why was this particular exception made in this regard ? I would like to know.

SHRI LOKANATH MISRA; The Minister says that that was the procedure in the External Affairs Ministry and that it was adopted. Is it not a fact that on many occasions the concerned Ambassadors have been summoned to the External Affairs Ministry and given the warning? Has it not been the case in the case of South Vietnam and in many other cases ?

SHRI MAHAVIR TYAGI : A written commitment is more authentic than an oral commitment.

MR. CHAIRMAN: I take it that in this case he was not called.

SHRI S. S. MARISWAMY: This action of Pakistan in inviting our rebels is a very serious matter and our Government has sent a protest note and the note has been rejected by Pakistan. What further proposals our Government has to pursue the matter and see that Pakistan and others who invite our rebels realise that they are doing something that is very much against international law?

SHRI JAGJIVAN RAM: There can be two actions. I will talk to the External Affairs Minister what further steps in this matter have to be taken so far as Pakistan Government is concerned. The other thing is that we have to make our preparations to deal with any situation that may be created by the hostile elements.

SHRI K. C. PANDA : May I know whether it is a fact that a gang led by Lt. Col. Maleila Pas and equipped with modern weapons and equipments has been seen in the nearby jungles and if so whether any combing operations have been taken up by our Government ?

SHRI JAGJIVAN RAM: I should like to give the details. In recent times in view of the sagging morals of the Naga hostiles some activities were intensified by them but at the same time the House must know that they are not receiving the same cooperation as the general Naga public and because they are not getting response from the population the surrender of the hostiles has been quite substantial, surrender of arms, surrender even of officers according to the ranking of Major-General, Brigadier and things like that. There are some hostiles who are still indulging in violence but we are taking action. One very satisfactory development is that they are not receiving the same co-operation from the population in Nagaland.

SHRI K. C. PANDA : My question was quite clear whether this particular gentleman, the so-called Lt. Col Maleila Pasaid his gang have been captured.

MR. CHAIDMAN: This is all right. Mr. Sundar Mani Patel is not here. Mr. Yalav.

श्री जगजीवन राम : मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उसने 27 मई, 1970 को पेट्रियाट में जो न्यूज निकली है उसको स्वीकार किया है और फिर 28 मई, 1970 को इंडियन एक्सप्रेस में भी यह खबर निकली जिसमें यह था कि नागा रिजिमेंट ने अपनी भारतीय यूनिट को भारत की सेना के साथ लड़ने के लिये तैयार किया है, इसकी सूचना प्रसारित भी की है और सेना का भी शुरु कर दी है। तो इस तरह से इन प्रश्न के सम्बन्ध में 27 मई, 1970 के पेट्रियाट में निकली न्यूज का कारोबोरेशन दूसरी न्यूज से मिलता है। इसी संदर्भ में मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सरकार ने नागा विद्रोहियों को सहायता देने की बात की है जिसको कि सरकार स्वीकार करती है तो क्या पाकिस्तान सरकार ने हिन्दुस्तान में भी उनके जो पंचमांगी तत्व हैं उनको भी

संगठित करने का प्रयास किया है—जिस प्रकार कि मुस्लिम लीग तैयार हुई है और जमायत-उल-उलेमा तैयार हुई है, जिनको पोलिटिकल फील्ड में दो राष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर तैयार किया गया है और हिन्दुस्तान में ये दोनों पाकिस्तानी तत्व और लीगी मनोवृत्ति मौजूद है—और पाकिस्तान ने भारतीयों से आजाद करने के लिये नागा विद्रोहियों की जो तैयारी की है, इन दोनों तैयारियों के बारे में सरकार को क्या जानकारी है।

और सरकार ने अभी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात की है तो जो उनसे प्रोटेस्ट दिया है उस प्रोटेस्ट नोट में किन-किन बातों का जिक्र किया है। उसकी जानकारी डिफेंस विभाग को है या नहीं ?

श्री जगजीवन राम : यह तो मूल प्रश्न के उत्तर में वह बता दिया गया है। ऐसा मालूम हुआ कि हमारा जो मीजो का इलाका है उससे सटा हुआ पाकिस्तान में जो हल्का है चिटभांव, उसकी पहाड़ियों में यह सम्मेलन भी हुआ था। उसी इलाके में इन तत्वों को सैनिक प्रशिक्षण देने के कुछ केन्द्र भी थे और अभी संबंध में यह नोट पाकिस्तान सरकार को भेजा गया कि यह बहुत ही अनुचित बात है कि हमारे यहां के लोगों को आपके यहां सम्मेलन में बुलाया जाय और हमारे विद्रोही तैयार किये जायें। यह सफ मूल प्रश्न के उत्तर में है।

जहां तक आपने दूसरा प्रश्न उठाया मैं समझता हूँ कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और अगर इस तरह की कहीं पर कोई बात नजर में आती है तो उनको डाल करने के लिये हम समर्थ हैं।

जहां तक यह कि हमारे देश में पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो इसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री ना० कृ० शंजवलकर : माननीय सभापति महोदय, वैसे देखा जाये तो मुझे

समय में नहीं आता कि यह सरकार किस मुंह से इस संबंध में आपत्ति कर सकती है कि जब कि स्वयं भारत सरकार ने मैडम बिनह को, जो वियतनाम की एक क्रांति करने वाली है यहां पर...

MR. CHAIRMAN: Please put a question. Madam Binh is irrelevant.

श्री ना० कृ० शेजवलकर मैं नवाल कर रहा हूं। तो वह जब यहां पर आता है उनका स्वागत किया जाता है, फिर उन नामी नेताओं के बारे में यह सरकार आपत्ति किस मुंह से कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के द्वारा और चीन के द्वारा उन विद्रोहियों को खुले रूप से शस्त्रास्त्र सप्लाई किये गये हैं, क्या इसकी सरकार को जानकारी है और क्या सरकार यह बतविगी कि इस समय जो कुछ आर्म्स सरेन्डर हुए हैं—जैना कि कहा जाता है—तो उनके पास इस प्रकार के कितने हथियार थे, कितने हथियार बरामद किये गये हैं, उनके साथ में लड़ाई करने के बाद इन दो विदेशों के कितने हथियार बरामद किये गये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : हमें इस बात की इत्तिला तो है कि पाकिस्तान और चीन इन लोगों को भड़का रहे हैं, शिक्षा और तालीम दगैरह दे रहे हैं और उन्हीं के पास से कुछ हथियार आए भी हैं, यह बात भी है। इस पर हम नजर रखते हैं और जहां-जहां मौका मिलता है उनसे मोर्चा लेते हैं माननाय सदस्य जानना चाहते हैं कि हमने चीन और पाकिस्तान के कितने लोगों को पकड़ा...

SHRI JAGJIVAN RAM: That is not the question.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : तो 1 जनवरी 1965 से 30 जनवरी 1970 तक 151 आदमी मारे गये हैं।

श्री जगजीवन राम : हथियारों के फिगर्स मांगते हैं।

(Interruptions)

SHRI M. M. DHARIA: Let the hon. Minister answer the question.

SHRI JAGJIVAN RAM: I will give you the figures. The arms surrendered by or Captured from the Naga underground till 30th June, 1970, number 3265, including 295 weapons from the China-returned Nagas. These include 3 medium machine guns, 45 light machine guns, 19 mortars, 10 rocket launchers, 1238 rifles, 40 sten guns, etc., apart from non-service pattern weapons.

SHRI MAHAVIR TYAGI: What were the markings . . .

श्री ना० कृ० शेजवलकर : त्यागी जी, मुझे अपना सवाल पूछ लेने दीजिए।

SHRI JAGJIVAN RAM: The classification as to how many are weapons with Chinese marking and how many with Pakistani marking is not given. This is the total that has been captured, but sometimes it happens that the arms that are provided by China or Pakistan do not come with their markings. They take that precaution . . .

SHRI MAHAVIR TYAGI: Has the Government . . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Tyagi, please sit down,

SHRI JAGJIVAN RAM: This is the total number of arms that have captured from, or have been surrendered by, the hostiles.

MR- CHAIRMAN : We have taken fifteen minutes on this question.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : This is an important question.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जिस बैठक की उन्हें जानकारी है उसमें जिन नेताओं ने भाग लिया ट्राइबल लीडर्स ने, क्या उनके नाम सरकार के पास हैं। ये सारे नेता हिन्दुस्तान की सीमा पार करके ऊपर गये या पहले से ही मौजूद थे। अगर ये हिन्दुस्तान की सीमा पार करके उधर गये तो इन सारे नेताओं को एक मीटिंग में एकत्रित करने की सूचना और उन सब को इकट्ठा करके इस मीटिंग में लाने की व्यवस्था किस एजेंसी ने की? कौन सी एजेंसी इन सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रयत्नशील रही? क्या इस संबंध में सरकार ने कोई छानबीन की है या अभी तक सारी छानबीन जारी है और इस संबंध में सरकार के पास क्या जानकारी है?

श्री जगजीवन राम : इसमें बहुत छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इधर से गये थे और कुछ बांडर के पास से गये थे।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : क्या उनके नाम कुछ मालूम हैं?

श्री जगजीवन राम : सब के नाम तो नहीं हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : दो चार के नाम तो होंगे।

श्री जगजीवन राम : नाम तो हमारे पास नहीं हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : किस के नहीं हैं?

श्री जगजीवन राम : उन लोगों के, लेकिन यह स्पष्ट है कि जो विद्रोही छिपकर काम करने वाले हैं उनमें से ही लोग गये हुए थे।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : क्या वे वापस लौट आये?

श्री जगजीवन राम : यह कहना मुश्किल है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : क्या उस बांडर का कोई मालिक है?

श्री जगजीवन राम : हाँ, बांडर का मालिक है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : वे लोग आ सकते हैं जा सकते हैं लेकिन हमको पता नहीं लगता है?

श्री जगजीवन राम : यह कहना मुश्किल है।

श्री प्रेम मनोहर : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हमने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और उन लोगों को एक्टिविटीज कम हो गई हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने यह बात किस आधार पर कही। अगर इस संबंध में कोई आंकड़े हैं तो निश्चित रूप से बतलाने की कृपा करें।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात यह भी पूछना चाहता हूँ कि हथियार चीन और पाकिस्तान दोनों इन्हें दे रहे हैं, लेकिन इन सब को फाइनेंस करने के लिए क्या जो बाहर की मिशनरियाँ भारी मात्रा में वहाँ पर आई हैं, वे उन सब को खपया नहीं दे रही हैं, क्या सरकार इस बारे में कोई छानबीन कर रही है? अगर उसने कोई छानबीन की है तो उसको स्पष्ट बतलाने की कृपा करें।

श्री जगजीवन राम : इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जनसाधारण का सहयोग उन छिपे विद्रोही नागाओं को उस अनुपात में नहीं मिल रहा है जिस अनुपात में पहले मिल रहा था। यह भी अनुभव हुआ है कि गत वर्ष वहाँ पर आम चुनाव हुए और ये आम चुनाव नागालैंड में संतोषजनक ढंग से हुए। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि वहाँ की जनता शांतिपूर्वक रहना चाहती है

जितना कि वह अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का कार्य कर सके । इन दिनों में जो उनके अधिकारियों, अधिकारियों या विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है या हथियारों का समर्पण किया है, उससे भी ऐसा मालूम होता है कि वहाँ की जनता का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है । आंकड़े आपने पूछे सो मैं कुछ दे सकता हूँ । 2 मार्च, 1970 को निकिडो ग्रामों जो अपने आप को नाना ब्रिटेडियर कहते हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास अपना आत्म-समर्पण किया । 8 मार्च को 82 लोगों ने जो लेफ्टिनेंट कर्नल अपने को कहते हैं, उनके नेतृत्व में आकर डिप्टी कमिश्नर के पास आत्म-समर्पण किया और हथियार भी दिये । मार्च 1970 को 120 नाना विद्रोहियों ने भी आत्म-समर्पण किया । 25 मई को एक लेफ्टिनेंट कर्नल बिखुवा ने अपने 45 अनुयायियों और 14 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया । 8 जून 1970 को ब्रिटेडियर नविटोसना ने चोफ सेक्रेटरी नानालैण्ड के पास 99 अनुयायियों और 100 हथियारों के साथ आत्म-समर्पण किया । 7 जुलाई, 1970 को एक मेजर जनरल होकिये ने अपने आपको छिपे हुए से ऊपर निकाला ।

श्री प्रेम मनोहर : मंत्री महोदय ने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । वह प्रश्न यह था कि जो हमरा-पैसा आ रहा है वह कहाँ से आ रहा है, क्या कार्रवाई मिलाने दे रहे हैं ?

श्री सभापति : कुछ उत्तरों जानकारी है आपको?

श्री जगजीवनराम : वयए, पैसों के बारे में निश्चित रूप से मैं सूचना देने की स्थिति में नहीं हूँ ।

SHRI LAL K. ADVANI: There are reports that Naga rebels of the Kachin State in Burma have also declared their intention to liberate Naga areas in Burma in cooperation with the Naga rebels in India. In view of the fact that the Naga threat

is developing into a common menace, has the Government of India made any attempt to secure the cooperation of the Burmese Government in checking and containing this menace? If so, what has been the Burmese Government's response? My second question is in respect of Muiva, the General Secretary of the Naga National Council which is the political arm of the Naga Underground, who is reported to have penetrated through our security forces and entered into India from China despite all our efforts. The authorities there have contradicted it. I would like to know the truth about Muiva, whether he has crossed the security ring or not.

श्री जगजीवन राम : जहाँ तक प्रश्न के पहले हिस्से का सम्बन्ध है उसका उत्तर है हाँ और सन्तोषप्रद ।

श्री लाल आडवाणी : उन्होंने कोअपरेशन दिया है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने कहा उसका है हाँ और सन्तोषप्रद । जहाँ तक दूसरे हिस्से का सवाल है, जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त करके दे दूँगा ।

डा० भाई महावीर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि जिन सैनिक अधिकारियों के साथ इन विद्रोहियों को भेंट हुई वे सैनिक अधिकारों पाकिस्तान के कौन-कौन थे और उनके रैंक्स क्या थे, उनको इस बात की जानकारी है या नहीं और यदि है तो उनको यह जानकारी कैसे मिली ?

दूसरे मैं यह जानना चाहूँगा कि आपके प्रोटेस्ट नोट का जवाब पाकिस्तान ने क्या दिया ? क्या उन्होंने उसको रिजेक्ट किया ?

श्री सभापति : उसका जवाब आ चुका है ।

डा० भाई महावीर : तीसरे जो नाना विद्रोही पाकिस्तान से खुली बातचीत करते

है, जिसकी जानकारी आपको मिलती है, क्या इन सारी घटनाओं के रहते हुए आपने उनके साथ सौज फायर का हुई है ? यदि को है तो क्या इस सौज फायर का मतलब केवल उनको अधिक गड़बड़ करने, हथियार और सामान जमा करने का अवसर देना मात्र नहीं हो जाता ? अगर यह है तो इस सौज फायर के बारे में क्या सरकार फिर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : जानकारी अपने सूत्रों से हमें प्राप्त हुई कि उनमें पाकिस्तान के सैनिक और असैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। प्रोटेस्ट नोट के सम्बन्ध में...

डा० भाईसाहब खीर : मैंने उनके नाम और रैंक के बारे में पूछा।

श्री जगजीवन राम : नाम और रैंक की जानकारी नहीं है।

डा० भाईसाहब खीर : मालूम नहीं है या बताना उचित नहीं ?

श्री जगजीवन राम : जानकारी नहीं है।

दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। सौज फायर का नाम गलत है। वहाँ पर हमने आपरेणन्स को स्थगित रखने का ही निश्चय किया था। उसमें भी जहाँ-जहाँ, जैसा मालूम होगा, देखते हैं कि नागा अन्डर-ग्राउन्ड्स विद्रोहियों की तरफ से कुछ उस तरह की छेड़छाड़ होने लगती है तो उसको हम दबा सकें और मुनासिब तरीके से डील कर सकें उसकी कार्यवाही भी की जाती है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने पिछली बार और कई बार सौराज में विद्रोही नागाओं से वार्ता की थी और उस वार्ता की असफलता के कारण वे विद्रोही नागा नेता जो अपने को सार्वभौम राज्य का मानते हैं, अपने को स्वतन्त्र मानते हैं उसी प्रकार की वार्ता के लिए चटगांव गये और उन की उस वार्ता में

पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी भी थे और वहाँ के सिविल अधिकारी भी थे। तो इस प्रकार से जो उन को समान और बराबरी का दर्जा हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया उस के कारण से ही उन नागा नेताओं का होसला बढ़ा है और उस के कारण ही समान रूख से बात करने की तैयारी उन्होंने पाकिस्तान से भी की ?

श्री जगजीवन राम : पिछले हिस्से का जवाब तो मैं मालूम किताब बार इस सदन में दिया जा चुका है। यह कोई नया प्रश्न नहीं है, लेकिन जो इतना देर से मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका असर यह नहीं पड़ना चाहिए कि उन का होसला बढ़ रहा है, बल्कि उसका असर यह पड़ना चाहिए कि विद्रोही नागाओं का होसला पस्त होता जा रहा है और नागाओं की साधारण जनता उन के साथ सहयोग नहीं कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Next question.

NAGA FEDERAL ARMY

*240. SHRI SUNDAR MANI PATEL: SHRI K. C. PANDA:-J-SHRI M. K. MOHTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the Press report appearing in the 'Indian Express' dated the 28th May, 1970 regarding instructions issued by the Naga Federal Army High Command to its army units to be ready for a showdown with the Indian Army and to the fact that in consultation with the Naga Federal Army, the "Revolutionary Government" of Manipur have opened camps near Novel, Ukral and Tengnoupal to recruit volunteers; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri K. C. Panda.